



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 444] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 30, 1979/कार्तिक 8, 1901
No. 444] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 30, 1979/KARTIKA 8, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके ।

Separate pagination is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation.

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(साध विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अक्टूबर, 1979

का. आ. 615(अ).—केंद्रीय सरकार के कृषि और सिंचाई मंत्रालय (साध विभाग) ने चीनी उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहण) अधिनियम, 1978 (1978 का 49) (जिसे इसमें आगे उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन जारी किए गए अपने आदेश सं. का. आ. 56(अ) तारीख 29 जनवरी, 1979 द्वारा जो भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 29 जनवरी, 1979 को पृष्ठ 101-102 (अ) में प्रकाशित हुआ था, राजा बलन्द चीनी कम्पनी लिमिटेड, रामपुर, जिला रामपुर (जिसे इसमें आगे

उक्त चीनी उपक्रम कहा गया है) का प्रबंध, तारीख 30 जनवरी, 1979 से, केन्द्रीय सरकार में निहित कर दिया है।

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त चीनी उपक्रम, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की 1971 की सिविल प्रकीर्ण रिट अर्जी सं. 4130 में दिए गए विनिश्चय के अनुसरण में उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) अधिनियम, 1971 (1971 का उत्तर प्रदेश अधिनियम सं. 23) की धारा 3 के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम में निहित होगा।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त आदेश सं. का.आ. 56(अ), तारीख 29 जनवरी, 1979 की तारीख 1 नवम्बर, 1979 से विखंडित करती है।

[सं. 4/1/79-एन. एस. यू.]

सी. एन. राघवन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION

(Department of Food)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th October, 1979

S.O. 615(E).—Whereas by its Order No. S.O. 56(E) dated the 29th January, 1979, published at pages No. 101-102 of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 29th January, 1979, issued under clause (b) of sub-section (1) of section 3 of the Sugar Undertakings (Taking Over of Management) Act, 1978 (49 of 1978) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Department of Food), vested the management of Raza Buland Sugar Company Limited, Rampur, District Rampur (hereinafter referred to as the said sugar undertaking) in the Central Government with effect from the 30th day of January, 1979 ;

And whereas the Central Government is of the opinion that the said sugar undertaking shall stand vested in the Uttar Pradesh State Sugar Corporation by virtue of section 3 of the Uttar Pradesh Sugar Undertakings (Acquisition) Act, 1971 (Uttar Pradesh Act No. 23 of 1971) following the decision of the High Court of judicature at Allahabad, in Civil Miscellaneous Writ Petition No. 4130 of 1971 ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 3 of the said Act, the Central Government hereby rescinds the said Order No. S.O. 56(E) dated the 29th January 1979, with effect from the 1st day of November 1979.

[No. 4/1/79-NSU]

C. N. RAGHAVAN, Jt. Secy.